

**SECTION – B**

**Psychology**

**Max. Marks – 100**

Roll No. (in figures) \_\_\_\_\_

Roll No. (in words) \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate \_\_\_\_\_

Signature of Invigilator's 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

**Instruction for Candidates:**

Attempt all 50 questions, each question carry 02 marks. There is no negative marking. Please mark the correct answer as A/B/C/D at appropriate place, on the right hand side of the question, in blue or black ink.

- Q1 According to Hebb which is the main basis of perception  
A Phase Sequence C Trace Mechanism  
B Cell Assembly D Synaptic Junction
- प्र. 1 हेब के अनुसार प्रत्यक्षण का मुख्य आधार है –  
A अवस्थाक्रम C चिन्ह प्रक्रम  
B कोशिका संग्रह D संधिस्थलीय सम्बंध
- Q2 Stimulus + Meaning =  
A Learning C Sensation  
B Response D Perception
- प्र. 2 उद्दीपक + अर्थ =  
A अधिगम C संवेदना  
B प्रतिक्रिया D प्रत्यक्षीकरण
- Q3 Height cue is ..... cue.  
A Monocular C Convergence  
B Binocular D None
- प्र. 3 उँचाई संकेत ..... संकेत है  
A एकनैत्री C अभिविन्दुता  
B द्विनैत्री D कोई नहीं

- Q4 Opposite of Perceptual Vigilance is ---  
 A Perceptual Constancy C Perceptual Defence  
 B Perceptual Organization D Illusion
- प्र. 4 प्रत्यक्षपरक निगरानी का विलोम है –  
 A प्रत्यक्षपरक स्थिरता C प्रत्यक्षपरक रक्षा  
 B प्रत्यक्षपरक संगठन D भ्रम
- Q5 If Brunswik ratio is zero, it means that perceptual constancy is --  
 A Optimum C More  
 B Zero D Less
- प्र. 5 यदि ब्रुनस्वीक अनुपात भून्य है, इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षपरक स्थिरता होगी  
 A उचित C अधिक  
 B भून्य D कम
- Q6 Who is Gestaltic Psychologist ?  
 A Werthiemer C Koffca  
 B Kohler D All of the above
- प्र. 6 निम्न में से गेस्टालट मनोवैज्ञानिक है –  
 A वरदाइमर C कोपका  
 B कॉहलर D उपरोक्त सभी
- Q7 In which approach of perception the base of perception is need and values  
 A Gibsonian C Directive State  
 B Gestalt D Information Processing
- प्र. 7 किस उपागम में प्रत्यक्षीकरण का आधार आवश्यकता व मूल्य को माना गया है –  
 A गिब्सोनियन C निदेशावस्था  
 B गेस्टालट D सूचना संसाधन
- Q8 According to Tollman extinction process is  
 A Active C Repressive  
 B Passive D None
- प्र. 8 टॉलमेन के अनुसार विलोपन प्रक्रिया है –  
 A सक्रिय C दमनात्मक  
 B निष्क्रिय D कोई नहीं
- Q9 In ..... principle, reinforcement and practice are useless.  
 A Tollman C Guthrie  
 B Kohler D Bandura
- प्र. 9 ..... सिद्धान्त में पुनर्बलन व अभ्यास महत्वहीन है –  
 A टॉलमेन C गुथरी  
 B कॉहलर D बान्डुरा

- Q10 Who said "All forgetting must involve new learning"
- A Skinner C Pavlov  
B Hull D Guthrie
- प्र. 10 सभी तरह के विस्मरण में क्या सीखना निश्चित रूप से सम्मिलित होता है, किसने कहा –
- A स्कीनर C पावलाव  
B हल D गुथरी
- Q11 Observational learning is nearly a ..... learning
- A Cognitive C Insightful  
B Pavlov D Maturity
- प्र. 11 प्रेरणात्मक अधिगम एक तरह का ..... अधिगम है
- A संज्ञानात्मक C अन्तर्दृष्टि  
B पावलाव D परिपक्वता
- Q12 Duration is very less in .....memory
- A Iconic C Short Term Memory  
B Echonic D Autobiographical
- प्र. 12 ..... स्मृति में अवधि सबसे कम होती है
- A प्रतिमा सम्बंधी C लघुकातिक  
B प्रतिध्वनि सम्बंधी D आत्मचरित
- Q13 If Retrieval = X, Storage = Y and Encoding = Z which is the correct order
- A X – Y – Z C Z – X – Y  
B Y – X – Z D Z – Y – X
- प्र. 13 यदि पुनःप्राप्ति =X, संयमत =Y तथा कूटसंकेतक =Z, कौनसा सही क्रम है –
- A X – Y – Z C Z – X – Y  
B Y – X – Z D Z – Y – X
- Q14 Which memory can be included in sensory memory
- A Episodic C Echoic  
B Semantic D Procedural
- प्र. 14 किस स्मृति को संवेदी स्मृति में रखा जा सकता है –
- A प्रासंगिक C प्रतिध्वनि  
B अर्थगत D कार्यविधि
- Q15 Which psychologist is related with 'Eyewitness testimony'
- A Loftus C Norman  
B Baddeley D Broadbent
- प्र. 15 मनोवैज्ञानिक 'प्रत्यक्षदृष्टि साक्ष्य' से सम्बंधित है –
- A लॉफ्टस C नॉर्मन  
B बैडली D ब्राडनेन्ट

Q16 According to Miller capacity of Short Term Memory is

A  $7\pm 1$  C  $7\pm 2$

B  $8\pm 1$  D  $7\pm 2$

प्र. 16 मिलर के अनुसार लघुकालिक स्मृति की क्षमता है –

A  $7\pm 1$  C  $7\pm 2$

B  $8\pm 1$  D  $7\pm 2$

Q17 According to Paterson and Paterson duration time of short term memory is

A 6 second C 18 second

B 10 second D 30 second

प्र. 17 पेटरसन एवं पेटरसन के अनुसार लघुकालिक स्मृति का अवधि समय है –

A 6 सेकण्ड C 18 सेकण्ड

B 10 सेकण्ड D 30 सेकण्ड

Q18 Who developed Phonological Loop Model

A Brodnet C Norman

B Baddeley D Atkinson

प्र. 18 ध्वनिग्राही लूप मॉडल का प्रतिपादन किसने किया –

A ब्राडनेन्ट C नॉर्मन

B बेडली D एटकिन्सन

Q19 Which is not always included in thinking

A Language C Symbol

B Concept D Sign

प्र. 19 कौन चिन्तन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है –

A भाषा C प्रतिमा

B संप्रत्यय D प्रतीक

Q20 Functional Fixedness is related with ..... characteristics

A Work C Experimental conditions

B Problem Solver D None of the above

प्र. 20 कार्यात्मक अटलता ..... विशेषताओं से सम्बंधित है –

A कार्य C प्रयोगात्मक परिस्थितियाँ

B समस्या समाधानकर्ता D उपरोक्त में से कोई नहीं

Q21 More emphasize on Functional Fixedness is given by

A Duncker C Duncker & Luchins

B Duncker & Maier D Maier

प्र. 21 कार्यात्मक अटलता पर किसने अधिक बल दिया –

A डन्कर C डन्कर व लुचिन्स

B डन्कर व मायर D मायर

Q22 According to Piaget which is not a tool of thinking among children

- A Symbol C Play  
B Sign D Language

प्र. 22 पियाजे के अनुसार बच्चों में चिन्तन का साधन नहीं है –

- A संकेत C खेल  
B चिन्ह D भाशा

Q23 Role of Problem solver is ..... in incubation

- A Active C Both Active and Passive  
B Passive D Can't Say

प्र. 23 उदभवन में समस्या समाधानकर्ता की भूमिका ..... होती है

- A सक्रिय C सक्रिय व निष्क्रिय दोनों  
B निष्क्रिय D कह नहीं सकते

Q24 Eros and Thantos are

- A Motives C Drive  
B Need D Instincts

प्र. 24 इरोज व थेन्टोज हैं –

- A अभिप्रेरक C अर्त्तनोद  
B आव यकता D मूल प्रवृत्ति

Q.25 Thirst is a ..... need

- A Cyclic C Specific  
B Non-cyclic D Primary

प्र. 25 प्यास एक ..... आव यकता है

- A चक्रीय C विधिष्ट  
B अचक्रीय D प्राथमिक

Q.26 If Ventromedial hypothalamus is destroyed than organism feel

- A more hunger C more thirst  
B less hunger D less thirst

प्र. 26 प्राणी के वेन्ट्रोमिडियल हाइपोथेलेमस नष्ट हो जाने पर वह अनुभव करेगा –

- A अधिक भूख C अधिक प्यास  
B कम भूख D कम प्यास

Q.27 Which organ is not important for homeostasis

- A Thalamus C Cerebellum

- प्र. 27 B Hypothalamus D Parietal Lobe  
समस्थिति में कौनसे अंग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है  
A थैलेमस C लघु मस्तिष्क  
B हाइपोथैलेमस D अग्रपालि
- Q.28 Need for Achievement is best measured by  
A Questionnaire C Thematic Apperception Test  
B Rosrch Test D Blacky Test
- प्र. 28 उपलब्धि आव यकता का उत्तम मापन किया जाता है  
A प्र नावली C विशय आत्मबोधन परीक्षण  
B रोसार्क परीक्षण D ब्लेकी परीक्षण
- Q.29 ..... need is mesasured by Obstruction method  
A Animal C Male  
B Man D Female
- प्र. 29 अवरोध विधि द्वारा ..... की आव यकता का मापन होता है  
A प J C पुरुश  
B मनुश्य D महिला
- Q.30 Zeigarnick Ratio =  
A 1 : 1 C 2 : 1  
B 1.5 : 1 D 1 : 2
- प्र. 30 जेगारनिक अनुपात =  
A 1 : 1 C 2 : 1  
B 1.5 : 1 D 1 : 2
- Q.31 The clear role of ..... is present in origin of emotions  
A Reticular Formation C Cerebellum  
B Thalamus D Hypothalamus
- प्र. 31 संवेग की उत्पत्ति में ..... की स्पष्ट भूमिका होती है  
A रेटिकुलर फॉरमे ान C सेरीबेलम  
B थैलेमस D हाइपोथैलेमस
- Q.32 Weschler defined intelligence on the basis of ..... approach  
A Atomist C Molar  
B Global D Psychometric
- प्र. 32 वेइलर ने बुद्धि को परिभाषित करने में किस उपागम का सहारा लिया  
A आणविक C मोलर  
B वै षक D मनोमितिक

Q.33 'Intelligence is like and electricity easy to measure but difficult to define' who said ?

- A Spearman  
B Binet  
C Jensen  
D Gardner

प्र. 33 'बुद्धि कर स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परन्तु परिभाषित करना मुश्किल है' किसने कहा -

- A स्पीयरमेन  
B बिनेट  
C जेनसन  
D गार्डनर

Q.34 First intelligence test was developed by

- A Wechsler  
B Binet Simon  
C Raven  
D Goodenough

प्र. 34 प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया

- A वेइलर  
B बिनेट-साइमन  
C रेवेन  
D गुडइन्फ

Q.35 Jensen research suggest that variability of intelligence is due to ..... environmental and ..... hereditary reasons

- A 80% ; 20%  
B 20% ; 80%  
C 50% ; 50%  
D 60% ; 40%

प्र. 35 जेनसन भोध प्रदि त करते है बुद्धि में परिवर्तन गीलता ..... पर्यावरणी, ..... आनुवंशिकता कारणों से होती है

- A 80% ; 20%  
B 20% ; 80%  
C 50% ; 50%  
D 60% ; 40%

Q.36 According to Thorndike type of intelligence is

- A Social intelligence  
B Abstract intelligence  
C Concrete intelligence  
D All of the above

प्र. 36 थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है

- A सामाजिक बुद्धि  
B अमूर्त बुद्धि  
C मूर्त बुद्धि  
D उपरोक्त सभी

Q.37 'Intelligence is what intelligence test measures' who said ?

- A Jensen  
B Wechsler  
C Robinson  
D Boring

प्र. 37 "बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है" किसने कहा -

- A जेनसन  
B वे लर  
C रॉबिन्सन  
D बोरिंग

Q.38 Businessmen have more ..... intelligence

- A Social  
B Abstract  
C Concrete  
D Cognitive

प्र. 38 व्यापारियों के ..... बुद्धि अधिक होती है

- A सामाजिक  
C मूर्त

B अमूर्त

D संज्ञानात्मक

Q.39 When was the fifth revision of Standfort-Binet Intelligence Test was done

A 1960

C 2003

B 1986

D 2007

प्र. 39 स्टैण्डफोर्ड-बिनेट के बुद्धि परीक्षण का पाँचवा संशोधन कब हुआ

A 1960

C 2003

B 1986

D 2007

Q.40 Who has given 50 definitions of Personality

A Eysenck

C Allport

B Berger

D Child

प्र. 40 व्यक्तित्व की 50 परिभाषाएँ किसने दी

A आइजेन्क

C आलपोर्ट

B बर्गर

D चाइल्ड

Q.41 Dysplastic type is similar to

A Endomorphy

C Mesomorphy

B Ectomorphy

D Complex

प्र. 41 विनालकाय प्रकार ..... के समान है

A एण्डोमोर्फ़ी

C मेसोमोर्फ़ी

B एक्टोमोर्फ़ी

D जटिल

Q.42 Who wrote the book 'Psychological Types'

A Jung

C Krestchmer

B Sheldon

D Spranger

प्र. 42 पुस्तक 'साइक्लोनिकल टाइप्स' के लेखक हैं -

A जुंग

C क्रेचमर

B भोल्टन

D स्प्रेंगर

Q.43 Cattell's 16 P.F. Questionnaire is based on

A Regression

C Cluster analysis

B Factor analysis

D 't' test

प्र. 43 कैटल की 16PF प्रनावली आधारित है

A प्रतिगमन

C गुच्छन वि. लक्षण

B कारक वि. लक्षण

D 'टी' परीक्षण

Q.44 Which is considered biological component of personality

A Id

C Super Ego

B Ego

D Zero-ego

प्र. 44 किसे व्यक्तित्व का जैविक तत्व माना जाता है

A इद

C पराहं



B अहं

D भून्य अहं

Q.45 Acting Childih is which defence mechanism

A Repression

B Regression

C Projection

D Displacement

प्र. 45 बच्चे जैसा व्यवहार करना कौनसी रक्षायुक्ति है

A दमन

B प्रतिगमन

C प्रक्षेपण

D विस्थापन

Q.46 Who wrote 'The study of Organ inferiority and its physical compensastion'

A Allport

B Sullivan

C Adler

D Sheldon

प्र. 46 'द स्टडी ऑफ ओर्गन इनफियरीलिटी एण्ड फिजीकल कम्पन ेसन'

A आलपोर्ट

B सुलीवान

C एडलर

D भोल्डन

Q.47 Standardized test should necessarily have

A Reliability

B Validity

C Norms

D All of the above

प्र. 47 मानवीकृत परीक्षण में आव यक रूप से होना चाहिये

A वि वसनीयता

B वैधता

C मानक

D उपरोक्त सभी

Q.48 The growth of language and speech is controlled by

A Right Hemisphere

B Left Hemisphere

C Cerebellum

D Hypothalamus

प्र. 48 भाशा तथा भाषण के विकास का नियंत्रण करता है

A दायें गोलार्द्ध

B बायें गोलार्द्ध

C लघु मस्तिष्क

D हाइपोथेलेमस

Q.49 Smallest Unit of nervous system is

A Neuron

B Axon

C Neurotransmitter

D Cell Body

प्र. 49 तंत्रिकातंत्र की सूक्ष्मतम इकाई कौनसी है

A न्यूरॉन

B एक्सॉन

C न्यूरोट्रांसमीटर

D को T भारीर

Q.50 Maximum Speed of nerve impulse in human

A 100 mt per min

B 100 mt per sec

C 100 mt per millise

D 100 mt per miccro millise

प्र. 50 मनुष्य में तंत्रिका आवेग की अधिकतम गति होती है

A 100 मी. प्रति मिनट

B 100 मी. प्रति सेकण्ड

C 100 मी. प्रति मिलीसेकण्ड

D 100 मी. प्रति माइक्रोमिलीसेकण्ड

## **Rough Sheet**